



भारत का राजपत्र The Gazette of India

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2003 (फाल्गुन 10 1924)
No. 9] NEW DELHI SATURDAY, MARCH 1, 2003 (PHALGUNA 10, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० 02/04/63-प्रशा०—राष्ट्रपति जी, श्री जानकी प्रसाद मौर्य को उपराष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर, रु० 6,500-200-10,500 वेतनमान में, 7 फरवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011 दिनांक 4 फरवरी 2002

सं० ए-22017/2/2003-पीएमए—श्री विजय गोयल द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का पद छोड़ने के परिणामस्वरूप, श्री अमिय चन्द्रा, आई० टी० एस० (88) जिन्हें राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त

1-472 GI/2002

किया गया था, ने दिनांक 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

सं० ए-22017/2/2003-पीएमए—श्री विजय गोयल द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का पद छोड़ने के परिणामस्वरूप, संस्कृति विभाग के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II श्री सतपाल, जिन्हें राज्यमंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, ने दिनांक 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

सं० ए-22017/2/2003-पीएमए—श्री विजय गोयल द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का पद छोड़ने के परिणामस्वरूप, श्री राजकुमार शर्मा, गैर-सरकारी व्यक्ति जिन्हें राज्य

मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने दिनांक 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं० ए-22012/1/2003-पोएमए—राष्ट्रपति जी, श्री राज प्रताप सिंह, आई० ए० एस० (उ०प्र० : 83) को दिनांक 3 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से लेकर केंद्र सरकार में उनकी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि (अर्थात् 17-11-2004 तक) के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले ही, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्य अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० आर०एस०/1622/स्था०(कामिक)—श्री अतर सिंह, सुरक्षा अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

प्र० र० गुहाराय, उप सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2003

सं० आरएस०/3(V)/2002/2—कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ संसदीय वृत्तलेखक, श्री गोविन्द लाल को 15 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में मुख्य संसदीय वृत्तलेखक के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० र० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस०/3(V)/2002/3—कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संसदीय वृत्तलेखक ग्रेड-I, श्रीमती निर्मला भट्ट को 15 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वरिष्ठ संसदीय वृत्तलेखक के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० र० गुहाराय, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं० ए-19014/1/2002-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री बंधु विकास बसु को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में, वेतनमान रु० 8000-275-13,500/- में, अनुसंधान अधिकारी के पद पर संबिदा आधार पर दिनांक 11 दिसम्बर 2002 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सी० ए० सुब्रमण्यन, उप सचिव

सं० ए-19014/1/2003-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्रीमती राजेश्वरी पिल्लै राजगोपालन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में, वेतनमान रु० 8000-275-13,500/- में, अनुसंधान अधिकारी के पद पर संबिदा आधार पर दिनांक 2 जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सी० ए० सुब्रमण्यन, उप सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं० 3/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केंद्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०सी० के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु०	
1.	पी० कार्तिकेयन	11-11-2002
2.	जी० एम० हेमन्त कुमार	27-11-2002
3.	वी० बाल सुब्रमणियम	29-11-2002
4.	के० वी० राघवेन्द्र	11-12-2002
5.	निशांक कुमार	01-01-2003

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2003-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केंद्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री आर० रत्नम, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी० ने स्वीकृत रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 19-12-2002 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2003-I—अन्तरिक्ष विभाग के सारभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निर्वहन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिए गए पदों से दिनांक 31-12-2002 के अपराह्न से कार्य-भार छोड़ दिया है :—

नाम	पद
श्री/श्रीमती/कु०	
जी० एल० नरसिंहम्	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस जी
ई० एन० राजु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस एफ
सी० जे० बेबी	भण्डार अधिकारी

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के मतीश धवन, अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्री हरिकोटा में श्री बी०

रवीन्द्रन को प्रशासन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 16-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० ई० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. मनोश मेहता
2. बी० जे० भरद
3. अमितकुमार बी० दवे
4. विवेदी एस० एम०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नत किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु०		
1.	एम० जे० एन० हाशमी	एस०ओ०सी०आर०ई०एस०-सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. ई
2.	किशोर चेतनदास भगत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी	-वही-
3.	एम० बी० महाजन	-वही-	-वही-
4.	अतुल सी० वैद्य	-वही-	-वही-
5.	के० स्वर्ण कुमार	-वही-	-वही-
6.	कमल कुमार पोद्दार	-वही-	-वही-
7.	जिगेश एम० शाँ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी
8.	जे० बी० पांचाल	-वही-	-वही-
9.	ए० पी० मज्रितिया	-वही-	-वही-
10.	एस० एम० चौहान	-वही-	-वही-
11.	राज महेन्द्रसिंह पी०	प्रड्यूसर सहा० सी	प्रड्यूसर बी

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० ई० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० एफ० के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. एन० के० स्वसानी
2. मंजरी एस० शाह

3. एस० रामदास
4. अशोक कुमार
5. डी० के० सिंह
6. पी० एन० बूतला
7. आर० एम० शाह
8. एन० एम० वच्चानी
9. ए० एस० पटेल

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नत किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु०		
1.	एन० एस० पिल्लै	एस०ओ०सी०आर०ई०एस०-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०
2.	वी० मुरलीधर	-वही-	-वही-
3.	ओ० पी० कौशिक	-वही-	-वही-
4.	वी० के० जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०एफ०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०जी०
5.	भरत दवे	-वही-	-वही-
6.	पटेल बलवन्त ए०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०ई०
7.	विनोद जोशी	-वही-	-वही-
8.	पी० जे० भानानी	-वही-	-वही-
9.	एन० जी० वपोद्रा	-वही-	-वही-

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०डी० के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. शिवानी एम० शाँ
2. बी० एन० शाँ
3. मिससं निशा वी राणा
4. यौनिक रूपाल आर०
5. बघेला पी० एस
6. एल० एम० राठी
7. सरोडे संध्या जी०
8. बेला ए० वैद्य
9. पी० सत्यनारायण
10. एच० एच० परमार

11. सी० एम० त्रिवेदी
12. ब्रजेन्द्र कुमार सिंह

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2003-—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० जी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी० के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. पी० एल० कुलकर्णी
2. डॉ० अभिजीत सरकार
3. डॉ० वी० के० अग्रवाल
4. ए० के० सिसोडिया
5. एम० जयमणि
6. डॉ० आर० एम० समुद्रय्या
8. आर० के० दवे

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बलियमल, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दो गयी तारीखों के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तारीख
	श्री/श्रीमती/कु०			
1.	ए० जी० सरस्वती अम्मा	सहा० प्रशा० अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	01-03-2002
2.	एस० के० अब्दुल मूनाफ	सहा० लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	19-08-2002

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 8/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2003 के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु०		
1.	लियो जैकसन जॉन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० डी०
2.	टी० शंकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० डी०
3.	श्रीराम एन०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० डी०
4.	हृदय नरेन सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० डी०
5.	एम० पार्वती देवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० सी०
6.	बी० शंकर मादस्वामी	-वही-	-वही-
7.	मोटेटि एस० बी० बापीराज	-वही-	-वही-
8.	विलास टी० राधोड	-वही-	-वही-
9.	बी० बालामूर्ति	-वही-	-वही-
10.	सुन्दर लाल	-वही-	-वही-

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 8/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2003 के पूर्वार्द्ध से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु०		
1.	एन. सेन गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
2.	एम० अम्बरीश बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी
3.	आर० रंग राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी
4.	जे० शम्भु सुन्दरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
5.	एन० के० श्रोवास्तव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
6.	जे० बी० नरसिंहम्	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
7.	एस० बी० एस० सांवेशिव राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०
8.	के० एल० शिवानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०
9.	यू० लक्ष्मीनरसिंहम्	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०
10.	एन० अम्ना दुरै	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 10/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के एक अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमति/कु०		
मंतोप कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०ई०
दीपक कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 11/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के आर० आर० एस० एस० सी०, जोधपुर में श्री सुपर्ण पाठक को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०ई के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं० ए-12022/1/2002-प्रशा०-IV--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा को अधिकारी श्रीमती सुब्बा, पी०टी०/ग्रेड-IV (जेटीएस) को कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) नई दिल्ली में 13 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से 8,000-275-13500 रु० के वेतनमान में, अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० ए० रहीम, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० ए-11011/3/2003-प्रशा० I--राष्ट्रपति, एशिया-टिक सोसाइटी कोलकाता को प्रशासनिक अधिकारी सुश्री मणिकुन्तला सरकार को 29-1-2003 के पूर्वाह्न से 31 मार्च 2003 तक 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में, राज्यमंत्री सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) के वैयक्तिक स्टाफ में अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री सरकार को नियुक्ति विलकुल अस्थायी और मंत्रालय में राज्यमंत्री की अवधि के साथ सह-समाप्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक है।

एस० सी० दास, वरिष्ठ विश्लेषक

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० ए-32014/1/2003-प्रशा०-I(वि०वि०)--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर, सचिव, विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय, सहर्ष, श्री सुनील रंजन, अनुवादक (हिन्दी शाखा), राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को रु० 7450-225-11500 के वेतनमान में दिनांक 6 फरवरी 2003 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक अधीक्षक (अनुवाद) के पद पर राजभाषा खण्ड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एम० दास, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं० I-18011/1/2003-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाया गया तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थायाकरण की तारीख
सर्वश्री		
1.	ब्रजेश कुमार झा, आई पी एस (गुजरात : 1999)	20-09-2001
2.	अजय कुमार चौधरी, आई पी एस (गुजरात : 1999)	20-9-2001
3.	वाबग जमोर, आई पी एस (गुजरात : 1999)	10-01-2002

जे० वी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं० 4 (फा० सं० ए-19012/6/98-प्रशा० I)--इस विभाग की दिनांक 16-4-1998 की अधिसूचना सं० 29/98 और दिनांक 25-7-2000 के कार्यालय आदेश सं० 125/2000 के क्रम में राष्ट्रपति, श्री अभय त्रिपाठी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश-86) को राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि को 15-4-2003 से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 15-4-2004 तक अथवा अगले आदेश होने तक बढ़ाते हैं।

प्रोति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2003

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं० 16 (फा० सं० ए-19011/2/2002-प्रशा०-I)---
इस विभाग को दिनांक 4-1-2002 को अधिसूचना सं० 7 के क्रम में, राष्ट्रपति, श्री पी० के० शर्मा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार, वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन विशेष सचिव की सेवाएं उनकी अधिवार्षिकी को तारख के बाद अर्थात् 30-4-2003 से 31-5-2003 तक 1 (एक) मास को अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

फा० सं० 8/1/02-डोआरटी---राष्ट्रपति, उत्तर रेलवे वाराणसी में सी एम आई श्री एस० के० मिश्रा को ऋण वसूली अधिकरण पटना के कार्यालय में 10,000-15200/- रु० के वेतनमान में 12-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डो० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० 17 : (फा० सं० ए०-19013/3/2003-प्रशा०-I)---
राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी, श्री हंस कुमार शर्मा को दिनांक 7-2-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (टैरिफ एकक) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

फा० सं० 8/4/2001-डोआरटी---बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों को वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के पीठासन अधिकारी श्री टी० रवि शंकर ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर एवं एरणाकुलम के पीठासीन अधिकारी श्री के० सत्यानंद के अवकाश की अवधि के दौरान अपने पदभार के अतिरिक्त बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक लिए ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर और एरणाकुलम के कार्य को भी संभालेंगे।

एस० पी० एस० सांगवान, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं० 1/2003 (फा० सं० II/18/2000-एन० सी० III---
राष्ट्रपति जी, श्री श्रीकान्त जाधव पुलिस अधीक्षक, करनाल, आई० पी० एस० (एच० वाई० : 94) को स्वापक नियंत्रक बूरो, नई दिल्ली में 17 जनवरी 2003 (अपराह्न) को प्रभावी तिथि से और अगले आदेश जारी होने तक प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 11 फरवरी 2003

फा० सं० 6/36/00-डी आर टी (पार्ट)---राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली के कार्यालय में सहायक रजिस्ट्रार, श्री पी० एस० परिहार की प्रतिनियुक्ति को अवधि को दिनांक 29-11-2002 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर बढ़ाते हैं।

एस० पी० एस० सांगवान, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2003

सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण

नई दिल्ली-110066, दिनांक 7 फरवरी 2002

पत्र सं० XIII(1)/गोपनी/1999---संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को रुपये 6500-200-10,500 के वेतनमान में सहायक पंजीकार के पद पर उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण की मुम्बई कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमति सुजा भास्करन पिल्ले	20-1-2003 (पूर्वाह्न)
2.	श्री मोहीन्दर सिंह	1-1-2003 (पूर्वाह्न)

ए० के० अग्निहोत्री, पंजीकार

फा० सं० 2/2/2002-मानव संसाधन विकास-1/7964---विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विदेश व्यापार विकास अधिकारी (अराजपत्रित समूह "ख") (नैर के० सं० से०) के पद पर चयन होने के फलस्वरूप, महानिदेशक विदेश व्यापार निम्नलिखित अधिकारियों

को इस महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं० 19/2003 दिनांक 4-2-2003 में उल्लिखित उनके तैनाती के स्थान पर पद ग्रहण की तारीख से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं० अधिकारी का नाम

1. श्रीमती कल्याणी चक्रवर्ती
2. श्री जो० बी० वायल

ए० के० एम० चाकणकर
संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं० ए-19012/401/78-व्य० I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (एस एल 1991) श्री सी० आर० विश्वास को, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसम्बर, 2002 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

जे० जे० कौर, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० ए-12011/10/2001-स्थापना I—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के सीएसएसएस के निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को 6500-10500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजि सचिव के रूप में (ए और नो मिताहर) प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए नियुक्त करते हैं :—

नाम	से	तक
श्री धरम पाल	01.06.2002	30.11.2002
श्री सुरेश चन्द्र	-वही-	-वही-
श्री ई० थोमस एफ	-वही-	-वही-
श्री एस० के० ठाकुर	05.03.2002	-वही-
श्री जगदीश चन्द्र	16.08.2002	-वही-

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्तियाँ कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उनके दिनांक 27 जनवरी, 2003 के का०ज्ञा० सं० 5/3/2002-सीएस-2 के अनुसार अनुमोदन प्राप्त हैं ।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर हैं और ये उपरोक्त व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति आदि के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं ।

एस० एस० केमवाल, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० ए०-11011/01/2002-स्था० I—राष्ट्रपति, श्री एस० के० श्रीवास्तव, भा० प्र० से० (ए०जी०एम०यू० 80) को दिनांक 5 फरवरी 2003 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में, संयुक्त सचिव के रूप में पांच वर्ष की सामान्य अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18400-22400/- रुपए के वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं० ए-12011/39/93-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री बी० एस० कर्दम, नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक को श्री बी० के० अग्रवाल, सहायक निदेशक (सहकारिता) जो अवकाश पर हैं, के स्थान पर या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो 20 जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से पूर्णतया तदर्थ आधार पर 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

2. इस तदर्थ पदोन्नति से उनको सहायक निदेशक (सहकारिता) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

एस० के० नायक, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2003

सं० ए-38012/5/2002-सो० एच० एस०-II—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की एक अधिकारी डॉ० (श्रीमती) लक्ष्मी उदय मेडिकेरला ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने के परिणाम-स्वरूप 23-11-2002 के अपराह्न से परिवार कल्याण प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन०एफ०एस०जी०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

एन० के० सारवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं० ए० 12025/5/98-डी/डीएसएस एंड पी एफ ए—
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिकांरिषों पर डा० जी०
एम० सिंह, (अनुसंधान एवं विज्ञान), आई० डी० पी० एल०,
मुद्रांक को 21 अक्टूबर, 2002 के आराह्ण से तत्त वर्षों की
अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 12000-10500
रुपए के वेतनमान में निदेशक, सी० आई० पी० एल०,
गाजियाबाद के पद पर तैनात करते हैं।

नीता केजरीवाल, अवर सचिव (डी)

(भारतीय चित्रितसा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2003

सं० ए० 12023/1/98-भा०वि०प० (स्थ०-II)---कामिक
और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 के डा०
जा० सं० 5/5/2001-सी०एस०-II के सहित वर्ष 1998 का
केन्द्रीय आशुलिपि सचिवालय सेवा के निजी सचिव ग्रेड का
(प्रधान निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) प्रवर सूच में श्री
एम० सी० शर्मा का नाम समाविष्ट किए जाने के परिणाम-
स्वरूप, राष्ट्रपति, कामिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समनुदे-
शित वरिष्ठता क्रम की वर्ष 1998 की प्रवर सूचों के क्रमांक
51 पर उल्लिखित करते हुए उन्हें (केन्द्रीय आशुलिपि सचि-
वालय सेवा) 9-12-2002 से केन्द्रीय आशुलिपि सचिवालय
सेवा के निजी सचिव के ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में
नामोद्दिष्ट) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

प्रेम नारायण सक्सेना, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 2003

एफ० सं० ए०-19012/1/2003-आ० प्र०---राष्ट्रपति,
कृषि एवं सहकारिता विभाग के के० सं० सं० संवर्ग में नियमित
अनुभाग अधिकारी श्री पी० के० पुरी को 8000-275-
13500/-रुपए के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी (सा०
के० सं० ग्रुप "ए" राजपत्रित) के पद पर कृषि लागत एवं
मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति
आधार पर 29-1-03 (पूर्वाह्न) से तत्त वर्ष या अगले
आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त
करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 2003

फा० सं० 9-3/99- मात्स्यकी (प्रशासन)---राष्ट्रपति,
श्री विजया कुमारन, उप महानिदेशक (मात्स्यकी), भारतीय
2-472 GA/2002

मात्स्यकी सर्वेक्षण, मुम्बई को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने
के फलस्वरूप दिनांक 31-10-2002 आराह्ण से सरकारी सेवा
से सेवानिवृत्त करते हैं।

रमन कुमार मेहता, अवर सचिव

संचार व युवा प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं० ए-32014/18/99-प्रशा०-II---राष्ट्रपति, दूरसंचार
विभाग के दूरसंचार सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक, श्री ए०
ए० के० ओझा को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में इसी संवर्ग
में 6500-10,500/-रु० के वेतनमान में पूर्णतया तथ्य आधार
पर तत्त सहित को आग्रित 1-1-2003 पूर्वाह्न से या
नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले
हो, नियुक्त करते हैं। श्री ओझा को वीरएएए में तैनात
किया जाता।

2. उपर्युक्त तथ्य नियुक्ति से अधिकारी को नियुक्ति के
ग्रेड में वरिष्ठता या नियमितकरण का दावा करने का कोई
अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशा०-II)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं० 400-52/2002-एट०जी III---भारत संचार निगम
लि० में राजस्थान दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत श्रीगंगानगर
जिले में महाप्रबंधक दूरसंचार के पद पर कार्यरत भारतीय दूर-
संचार सेवा ग्रुप "क" के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी
श्री अवधेश कुमार (स्टाफ नं० 654) का 20-9-2002 को
देहान्त हो गया है।

डॉ० विनसेट बारला, अवर सचिव

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं० 1-22/2001-एसपीजे---राष्ट्रपति सहर्ष भारतीय
डाक सेवा, 'क' समूह, 1968 बैच के अधिकारी मेजर जनरल
एस० के० सेन, जो, फिलहाल, भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के
प्रधान मुंबई पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में सेना डाक सेवा में
प्रतिनियुक्ति पर हैं, को, एफ आर 22 के खण्ड II के अनुसार
22400-600-26000 के वेतनमान में, 1-1-2003, अर्थात्
उनके कनिष्ठ को पदोन्नति की तारीख, से प्रोफार्मा पदोन्नति
प्रदान करते हैं।

आर० एस० यादव, निदेशक (एसजीपी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० 39-1/94-प्रशासन—राष्ट्रपति सहर्ष सुश्री इन्द्रजीत कौर, निजी सचिव (तदर्थ) को 31-1-2003 की अपराह्न से सीएसएसएस के उनके स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' के मूल पद पर प्रत्यावर्तित करते हैं।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 11 फरवरी 2003

सं० 30-2/2002-प्रशा०—श्री रमेश चन्द्र, जो इस विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर हिन्दी अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, को 19-2-2003 (अपराह्न) से वरि० हिन्दी अनुवादक के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सं० 30-2/2002-प्रशा०—श्री वी० के० शर्मा, वरि० हिन्दी अनुवादक का डाक विभाग के हिन्दी अधिकारी के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर प्रारंभ में 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए 20-02-2003 (पूर्वाह्न) या वह तारीख, जिस दिन वे कार्यभार ग्रहण करते हैं, जो भी बाद में घटित हो, से हिन्दी अधिकारी (जीसीएस समूह "ख") के तौर पर नियुक्त किया जाता है।

जी० पी० पित्रै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं० ई आर बी-I/2002/2/58—श्री उत्तम चन्द, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियर सेवा सलाहकार (भूमि एवं सुविधाएं), रेलवे बोर्ड को 27-1-2003 के पूर्वाह्न से 22400-24500/- रु० के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं
पदेन अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2003

सं० ईआरबी-I/2001/2/14—श्री शिवकुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, सलाहकार (सतर्कता), रेलवे बोर्ड को 27-1-2003 के पूर्वाह्न से 22400-24500/- रु० के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं
पदेन अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० ए-32014/1/2000-स्था II—राष्ट्रपति, श्री एस० सी० कम्बोज, मुख्य प्रारूपकार, को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 03-2-2003 (पूर्वाह्न) से तकनीकी सहायक के पद पर नियमित आधार पर रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं० 3/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में निम्नलिखित वैज्ञानिक 'सी' को सुनम्य अनुपूरक योजना के अंतर्गत 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर 10 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्वस्थाने पदोन्नति की जाती है:—

1. श्री पी० सी० पंत;
2. श्री एन० बी० राजू; और
3. श्री ए० एम० हुसैन

2. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के समूह 'क' राजपत्रित पद (गैर-मंत्रालयी वैज्ञानिक एवं तकनीकी) नियम, 1988 के अनुसार उनकी उपर्युक्त तीन वैज्ञानिकों की उक्त पदोन्नति उनके लिए व्यक्तिगत होगी।

एम० जे० जॉन, अवर सचिव

सं० 3/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में श्री आर० सी० तिवारी, वैज्ञानिक 'क' को सुनम्य अनुपूरक योजना के अंतर्गत 16,400-450-20,000 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में 10 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्वस्थाने पदोन्नत किया जाता है।

2. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय समूह 'क' राजपत्रित पद (गैर-मंत्रालयी वैज्ञा० एवं तकनीकी) नियम, 1988 के अनुसार उनकी उक्त पदोन्नति उनके लिए व्यक्तिगत होगी।

एम० जे० जॉन, अवर सचिव

सं० 3/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में श्री ए० ए० नरवाने, वैज्ञानिक 'बी' को सुनम्य अनुपूरक योजना के अंतर्गत 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में 10 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्वस्थाने पदोन्नत किया जाता है।

2. आंतरपरिष्कार ऊर्जा स्रोत मंत्रालय समूह 'क' राजपत्रित पत्र (सं-संज्ञागत वैज्ञानिक एवं तकनीकी) नियम, 1988 के अनुसार उनको उक्त पदोन्नति उनके लिए व्यक्तिगत होगी।

एम० जे० जॉन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० 7/13/97-जी० डब्ल्यू० 1 (भाग II) — इस मंत्रालय की दिनांक 26-6-2002 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती पूजा मेहरोत्रा द्वारा केंद्रीय भूमिजल बोर्ड में वैज्ञानिक बी (हमिस्ट) के पद का कार्यभार संभालने की तिथि को 08-01-2002 के स्थान पर 31-12-2001 रखा जाए।

मोहन एस सैनी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं० 11/2003-फाईन संख्या 25/1/98-स्थापना एक—केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने परिणामस्वरूप, श्री बोडा दीन कुमार, सहायक निदेशक/प्रशासनिक कार्यवाहक इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग को 24-12-1999 (प्राप्ति) के कार्यभार का किया जाता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2003

सं० ए-12025/1/2000-आई० आई० एस० — राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर निम्न-लिखित उम्मीदवारों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' की कनिष्ठ श्रेणी में 8000-275-13500/- रुपए के वेतनमान में नियुक्त करते हैं :—

उम्मीदवार का नाम	रैंक संख्या	नियुक्ति की तारीख
श्री अम्पाडी के	153	2.9.2002 (पूर्वाह्न)
शुश्री हिमानी सरद	169	-वही-
श्री सुरेश एच० एच०	170	-वही-
श्री प्रणव भण्जेण	200	-वही-
श्री पंकज पाण्डे	203	-वही-
श्री उलागनाथन	261	23-12-2002
श्री मनोष गोतम	401	2-9-2002
शुश्री पद्मा अंगमो	412	2.9.2002 (अपराह्न)

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा समूह "क" की कनिष्ठ श्रेणी में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

3. उपरोक्त सभी अधिकारियों को पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक सूचना अधिकारों के परीक्षा आरक्षित पदों पर नियुक्त कर दिया गया है।

जी० एस० पुण्डरी, अवर सचिव

गहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(गहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं० ए-32013/1/2002 टीसीपीओ/प्रशा० III/यूडी— राष्ट्रपति द्वारा नगर और ग्राम नियोजन संगठन के श्री संदीप कुमार राउत, सहायक नगर और ग्राम नियोजक को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक उसी संगठन में नियमित आधार पर 10,000 325-15,200/-रु० के वेतनमान में सह नगर और ग्राम नियोजक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी० के० मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2003

सं० ए-11015/1/99-टीसीपीओ/प्रशा० II/यू० डी० I— इस मंत्रालय की दिनांक 26 अगस्त, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती नेलम शर्मा को वरिष्ठ निजी सहायक (जी०सं०जं० ग्रुप बी राजपत्रित) के पद पर पदोन्नति दिनांक 26 जून, 2002 (पूर्वाह्न) से प्रभावी होगी।

विनोद कुमार मिश्र, अवर सचिव

(भूमि तथा विकास कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं० प्रशा० 14(21)/2/2001/II—राष्ट्रपति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (के०सं०से०) श्री विजय तेहलान को 27 जनवरी, 2003 अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में रु० 8,000-13,500 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहस्र सतर्कता-सह-विधि अधिकारी नियुक्त करते हैं।

आर० पी० सिंह, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th February 2003

No. 02/4/63-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Janki Prasad Maurya, as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. 7th February 2003 (A/N) until further orders.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy.

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 4th February 2003

No. A. 22017/2/2003-PMA.—Consequent upon demission of office of Minister of State in the Prime Minister's Office by Shri Vijay Goel, Shri Amiya Chandra, ITS (88) appointed as Private Secretary to MOS (PMO) has relinquished the charge of the post in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of January 31, 2003.

P. K. ROY, Under Secy.

No. A. 22017/2/2003-PMA.—Consequent upon demission of office of Minister of State in the Prime Minister's Office by Shri Vijay Goel, Shri Sat Pal, Statistical Investigator Grade II in the Department of Culture and appointed as Additional Private Secretary to MOS (PMO) has relinquished the charge of the post in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of January 31, 2003.

P. K. ROY, Under Secy.

No. A. 22017/2/2003-PMA.—Consequent upon demission of office of Minister of State in the Prime Minister's Office by Shri Vijay Goel, Shri Raj Kumar Sharma, a private person and appointed as Officer on Special Duty to MOS (PMO) has relinquished the charge of the post in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of January 31, 2003.

P. K. ROY, Under Secy.

New Delhi-110011, the 13th February 2003

No. A. 22012/1/2003-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Raj Pratap Singh, IAS (UP : 83) as Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 3rd February 2003 for the remaining period of his Central Deputation (i.e. up to 17-11-2004) or until further orders, whichever event occurs earlier.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

New Delhi-110001, the 31st January 2003

No. RS/1622/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Atar Singh, Security Officer retired from service with effect from the afternoon of the 31st January, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

The 18th February 2003

No. RS/3(v)/2002/2-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Gobind Lal, Senior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Chief Parliamentary Reporter in that Secretariat with effect from the forenoon of the 15th February, 2003 until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(v)/2002/3-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Nirmala Bhatt, Parliamentary Reporter Grade-I in the Rajya Sabha Secretariat to officiate

in the cadre of Senior Parliamentary Reporter in that Secretariat with effect from the forenoon of the 15th February, 2003 until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110066, the 4th February 2003

No. A-19014/1/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Baidya Bikash Basu as Research Officer on contract basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the National Security Council Secretariat, with effect from the forenoon of 11th December, 2002 for a period of two years or until further orders whichever is earlier.

C. A. SUBRAMANIAN, Dy. Secy.

No. A-19014/1/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Rajeswari Pillai Rajagopalan as Research Officer on contract basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the National Security Council Secretariat, with effect from the forenoon of 2nd January, 2003 for a period of two years or until further orders whichever is earlier.

C. A. SUBRAMANIAN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 10th February 2003

No. 3/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No., Name & Date of appointment

Shri/Smt./Kum.

1. P. Karthikeyan—11-11-2002
2. G. M. Hemantha Kumar—27-11-2002
3. V. Balasubramaniam—29-11-2002
4. K. V. Raghavendra—11-12-2002
5. Nishank Kumar—01-01-2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2003-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Shri R. Rathinam, Scientist/Engineer-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 19-12-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2003-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the 31-12-2002.

Sl. No., Name & Post

Shri/Smt./Kum.

1. G. L. Narasimhan—Scientist/Engineer-SG
2. E. N. Raju—Scientist/Engineer-SF
3. C. J. Baby—Stores Officer

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri V. Ravindran as Administrative Officer in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 16-01-2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Manish Mehta
2. B. J. Bharad
3. Amitkumar B. Dave
4. Trivedi S. M.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :—

Sl.No., Name, Post from which promoted & Post to which promoted

Shri/Smt./Kum.

1. M. J. N. Hashmi, SOC RES C—Scientist/Engineer-SE
2. Kishore Chetandas Bhagat, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
3. M. B. Mahajan, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
4. Atul C. Vaidya, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
5. K. Swarna Kumar, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
6. Kamal Kumar Poddar, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
7. Jigesh M Shah, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC
8. J. B. Panchal, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC
9. A. P. Majithiya, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC
10. S. M. Chauhan, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC
11. Raj Mahendrasinh, P. Producer Asstt. C—Producer B

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SG in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. N. K. Savasani
2. Manjari S Shah
3. S. Ramdass
4. Ashok Kumar
5. D. K. Singh
6. P. N. Butala
7. R. M. Shah
8. N. M. Vachhani
9. A. S. Patel

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted & Post to which promoted

Shri/Smt./Kum

1. N. S. Pillai, Scientist/Engineer-G—Scientist/Engineer-H
2. V. Muralidhar, Scientist/Engineer-G—Scientist/Engineer-H
3. O. P. Kaushik, Scientist/Engineer-G—Scientist/Engineer-H
4. V. K. Jain, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG
5. Bharat Dave, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG
6. Patel Balvant A, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
7. Vinod Joshi, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
8. P. J. Bhanani, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE
9. N. G. Bapodra, Scientist/Engineer SD—Scientist/Engineer-SE.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :

Shri/Smt./Kum

1. Shivani M Shah
2. B. N. Shah
3. Nisha V. Rana
4. Yagnik Rupal R.
5. Vaghela P. S.
6. L. M. Rathod
7. Sarode Sandhya G.
8. Bela A Vaidya
9. P. Satyanarayana
10. H. H. Parmar
11. C. M. Trivedi
12. Brajendra Kumar Singh.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :

Shri/Smt./Kum

1. P. L. Kulkarni
2. Dr. Abhijit Sarkar
3. Dr. V. K. Agarwal
4. A. K. Sisodia
5. M. Jeyamani
6. D. R. M. Samudraiah
7. R. K. Dave.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the post mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Sl.No., Name, Post from which promoted, Post to which promoted & Date of Promotion

Shri/Smt/Kum

1. A. G. Saraswathy Amma, Asstt. Admn. Officer, Admn. Officer—01-03-2002

2. S. K. Abdul Munaff, Asstt. Accounts Officer, Accounts Officer—19-08-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 8/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted & Post to which promoted

Shri/Smt/Kum

1. Leo Jackson John, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD

2. T. Shanker, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD

3. Sriram N., Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD

4. Hridaya Narain Singh, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD

5. M. Parvathi Devi, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC

6. B. Sankar Madaswamy, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC

7. Gotety S. V. Bapiraju, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC

8. Vilas T. Rathod, Scientist/Engineer-SB Scientist/Engineer-SC

9. V. Balamoorthy, Scientist/Engineer-SB Scientist/Engineer-SC

10. Sundar Lal, Scientist/Engineer-SB Scientist/Engineer-SC.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 8/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted & Post to which promoted

Shri/Smt/Kum

1. N. Sengupta, Scientist/Engineer-SG—Scientist/Engineer-G

2. M. Ambarisha Babu, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG

3. R. Ranga Rao, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG

4. J. Shanmuga Sundari, Scientist/Engineer-SE—Scientist/Engineer-SF

5. N. K. Shrivastava, Scientist/Engineer-SE—Scientist/Engineer-SF

6. J. V. Narasimham, Scientist/Engineer-SE—Scientist/Engineer-SF

7. S. V. S. Sambasiva Rao, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE

8. K. L. Shivani Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE

9. U. Lakshminarasimham, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE

10. N. Anna durai, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 10/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the SAC, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders.

Sl. No., Name, Post from which promoted & Post to which promoted

Shri/Smt/Kum

1. Santhosh Kumar, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SE

2. Deepak Kumar, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 11/1(1)/2003-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri Suparn Pathak as Scientist Engineer-SE in the RRSSC, Jodhpur of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi-1, the 7th February 2003

No. A-12022/1/2002-Admn. IV.—The President is pleased to appoint Smt. Subha P. T. Grade IV (JTS) officer of the Indian Statistics Services as Research Officer, in the scale of Rs. 8000-275-13,500 - in the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) at New Delhi, w.e.f. the forenoon of 13th January, 2003.

S. A. RAHIM, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & P. I.

New Delhi-1, the 7th February 2003

No. A. 11011/3/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Ms. Manikuntala Sarkar, an Administrative Officer in the Asiatic Society, Kolkata as Additional Private Secretary in the personal staff of Minister of State for Statistics & P.I. (Shri Satyabrata Mookherjee) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 - with effect from the forenoon of the 29th January, 2003 till 31st March, 2003.

2. The appointment of Ms. Sarkar is purely temporary and co-terminus with the tenure of the Minister of State in the Ministry of Statistics & P.I. until further orders, whichever is earlier.

S. C. DAS, Senior Analyst

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 7th February 2003

No. A. 32014/1/2003-Admn.I(L.D.).—On recommendation of the Departmental Promotion Committee, Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri Sunil Ranjan, Translator (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Superintendent (Translation) in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of the 6th February, 2003 and until further orders.

M. DAS, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th February 2003

No. I-18011/1/2003-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Gujarat with effect from the dates mentioned against their names.

S. No., Name of the officer & Date of confirmation.
S/Shri

1. Brajesh Kumar Jha, IPS (GJ : 1999)—20-09-2001
2. Ajay Kumar Choudhary IPS (GJ : 1999)—20-09-2001.
3. Wabang Jamir, IPS (GJ : 1999)—10-01-2002.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd January 2003

No. 4 : (F. No. A. 19012/6/98-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 29/98 dated 16-04-1998 and Office Order No. 125/2000 dated 25-07-2000, President is pleased to extend the deputation tenure of Shri Ahay Tripathi, IAS (AP : 86), Department of Revenue for a period of one year beyond 15-04-2003 i.e. upto 15-04-2004 or until further orders.

RPEETI PANT, Under Secy.

The 10th February 2003

No. 16 : (F. No. A. 19011/2/2002-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 7 dated 04-01-2002, the President is pleased to extend the services of Shri P. K. Sarma, Chairman, Central Board of Direct Taxes and ex-officio Special Secretary to the Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Department of Revenue, for a period of 1 (one) month beyond his date of superannuation i.e. from 30-04-2003 upto 31-05-2003.

RPEETI PANT, Under Secy.

No. 17 : (F. No. A. 19013/3/2003-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Hans Kumar Sharma, IC&CES as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise & Customs for a period of three years w.e.f. 7-2-2003 (F/N) and until further orders. He is posted as Senior Technical Officer (Tariff Unit).

RPEETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 4th February 2003

No. 1/2003 [F. No. IV/18/2000-NC.III].—The President is pleased to appoint Shri Shrikant Jadhav, Superintendent of Police, Karnal, IPS (HY : 94) as Assistant Director in the Narcotics Control Bureau at New Delhi on deputation basis for a period of three years w.e.f. 17th January, 2003 (A/N) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

CUSTOMS, EXCISE AND GOLD (CONTROL)

APPELLATE TRIBUNAL

New Delhi-110066, the 7th February 2003

No. XIII(1)/Conf./99.—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission the following persons were appointed as Assistant Registrar in the Customs Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal, Mumbai in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No., Name & Date of appointment

1. Ms. Suja Bhaskaran Pillai—20-01-2003 (F.N.)
2. Shri Mohinder Singh—01-01-2003 (F.N.)

A. K. AGNIHOTRI, Registrar

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 2nd January 2003

No. 8/1/02-DRT.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Mishra, CMI, Northern Railways, Varanasi to the post of Assistant Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Patna on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 for a period of three years w.e.f. 12-12-2002 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2003

No. 8/4/2001-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Shri T. Ravi Shankar, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad will look after the work of Debts Recovery Tribunals, Bangalore and Ernakulam during the leave period of Shri K. Satyanand, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Bangalore and Ernakulam in addition to his own charge without additional remuneration.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 11th February 2003

No. 6/36/00-DRT (Part).—The President is pleased to extend the deputation period of Shri P. S. Parihar Assistant Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal-I Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 with effect from 29-11-2002 (F.N.) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 4th February 2003

No. 2/2/2002/HRD-I/7964.—Consequent on the selection to the post of Foreign Trade Development Officer (Gazetted Group 'B') (Non-CSS) by the Departmental Promotion Committee, the Director General of Foreign Trade is pleased to appoint the following officers in this Directorate with effect from the date of joining to the post in the place of posting indicated in this Directorate Office Order No. 19/2003 dated 04-02-2003 :—

Sl. No. & Name of Officer

1. Smt. Kalyani Chakraborty
2. Shri G. B. Wayal

A. K. M. CHAKANKAR
It. Dir., General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 31st December 2002

No. A-19012/401/78-E.I.—The President is pleased to permit Shri C. R. Biswas, a Grade I officer of the Central Secretariat Service (SL 1991) and working as Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, to retire from Government service, with effect from the afternoon of 31st December, 2002 on his attaining the age of superannuation.

J. J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 31st January 2003

No. A-12011/10/2001-Estt.—The President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' of CSSS borne on the cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Private Secretary (A&B merged) on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- for a period as mentioned against each :—

S. No., Name, From—To

1. Shri Dharam Pal, 01-06-2002—30-11-2002
2. Shri Suresh Chander, 01-06-2002—30-11-2002
3. Shri E. Thomas F., 01-06-2002—30-11-2002
4. Shri S. K. Thakur, 05-03-2002—30-11-2002
5. Shri Jagdish Chand, 16-08-2002—30-11-2002

2. The above ad hoc appointments are with the approval of Department of Personnel & Training vide O.M. No. 5/3/2002-CS.II dated 27th January, 2003.

3. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not bestow on the above mentioned persons any claim for regular appointment etc.

S. S. KEMWAL, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 6th February 2003

No. A-11011/1/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Srivastava, IAS (AGMU : 80) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 5th February, 2003 in the pay scale of Rs. 18400—22400/- for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th February 2003

F. No. A-12011/39/93-Estt.—The President is pleased to promote Shri B. S. Kardam, a regular Senior Technical Assistant as Assistant Director (Cooperation) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 20th January, 2003, vice Shri B. K. Agarwal, Assistant Director (Cooperation), who has proceeded on leave, or until further orders, whichever is earlier.

2. The period of ad-hoc appointment would not confer upon him any right or claim for regular appointment, seniority etc. in the Grade of Assistant Director (Cooperation).

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & F. W.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 22nd January 2003

No. A. 38012/5/2002-CHS.II.—Consequent on her proceeding on voluntary retirement Dr. (Mrs.) Lakshmi Uday Medicherla, an officer of the Central Health Service relinquished the charge of the post of CMO (NFSG) under Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai on the afternoon of 28-11-2002.

N. K. SARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 17th February 2003

No. A. 12025/5/98-D/DMS&PFA.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. G. N. Singh, Manager (R&D), IDPL, Gurgaon to the post of Director, C.I.P.L. Ghaziabad in the pay scale of Rs. 12000—16500/- on deputation basis for a period of three years w.e.f. 21st October, 2002 (afternoon).

NITA KEJREWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ISM & HOMOEOPATHY)

New Delhi, the 5th February 2003

No. A-12023/1/98-ISM(E.II).—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Private Secretary Grade of CSSS (Designated as Principal Private Secretary) for the year 1998 vide DoPT's O. M. No. 5/5/2001-CS-II dated 09th December 2002, the President is pleased to appoint Shri M. C. Sharma of CSSS to the Private Secretary Grade of CSSS (Designated as Principal Private Secretary) on regular basis with effect 09-12-2002 with his placement being at Sl. No. 51 of the Select List for the year 1998 as regard to the order of seniority assigned by the DoPT.

PREM NARAIN SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-110001, the 6th February 2002

No. A. 19012/1/2003-EA.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Puri, a regular Section Officer borne on the CSS Cadre of the Department of Agriculture and Cooperation, to the post of Administrative Officer (GCS Group 'A' Gazetted) in the Psy Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-, in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, on deputation basis for a period of three years with effect from 29-01-2003 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

RAJ KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 6th February 2003

F. No. 2-3/99-Fy. (Admn.).—The President is pleased to permit Shri K. Vijayakumaran, Deputy Director General (FY) Fishery Survey of India, Mumbai to retire from Government service, consequent on attaining the age of superannuation on 31-10-2002 (afternoon).

R. K. MEHTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY**(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

New Delhi-110 001, the 2nd January 2003

No. A-32014/18/99-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri H. H. K. Ojha, Assistant of CSS of the Department of Telecommunications cadre to the grade of Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the same cadre purely on ad-hoc basis for a period of 3 months w.e.f. the forenoon of 01-01-2003 or till regular Section Officer becomes available, whichever is earlier. Shri Ojha is posted in BSNL.

2. The above ad-hoc appointment will not confer any right on the officer for claiming seniority or regularization in the grade appointed.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn. II)

New Delhi-11001, the 13th February 2003

No. 400-52/2002-STG-I.—Shri Avadhesh Kumar (Staff No. 654), an officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecom. Service Group 'A', who was working as General Manager Telecom. District, Sriganganagar of Rajasthan Telecom. Circle, Bharat Sanchar Nigam Limited, expired on 20-9-2002.

Dr. VINCENT BARLA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 30th January 2003

Nn. 1-22/2001-SPG.—The President is pleased to grant proforma promotion to Maj. Genl. S. K. Sen an officer of Indian Postal Service Group 'A' of 1968 batch presently on deputation to APS in the Principal CPMG grade of Indian Postal Service Group 'A' in the pay scale of Rs. 22,400-600-26,000/- w.e.f. 1-1-2003 i.e. the date on which his junior has been promoted in terms of Clause II of FR 22.

R. S. YADAV, Asstt. Director Genl. (SGP)

New Delhi-110001, the 7th February 2003

No. 39-1/94-Admn.—The President is pleased to revert Ms. Inderjit Kaur, Private Secretary (ad-hoc) to her substantive post of Stenographer Grade 'C' of CSS w.e.f. the afternoon of 31-1-2003.

G. P. PILLAI
Asstt. Director General (Admn.)

The 11th February 2003

No. 30-2/2002-Admn.—Shri Ramesh Chandra who was working as Hindi Officer on deputation basis in this Department is reverted to his substantive post of Sr. Hindi Translator w.e.f. 19-2-2003 (A/N).

G. P. PILLAI
Asstt. Director General (Admn.)

No. 30-2/2002-Admn.—Consequent on his selection to the post of Hindi Officer, the President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, Sr. Hindi Translator in the Department of Posts, as Hindi Officer (GCS Group 'B') in the Scale of Pay of Rs. 6500-200-10500/- on transfer on deputation basis for an initial tenure of 3 years w.e.f. 20-02-2003 (F/N) or from the date he assumes charge, whichever is later.

G. P. PILLAI
Asstt. Director General (Admn.)**MINISTRY OF RAILWAYS****(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 14th February 2003

No. ERB-I/2002/2/58.—Shri Uttam Chand, SAG/IRSE, Adviser (I&A), Railway Board is appointed to Grade Rs. 22400—24500/- w.e.f. the forenoon of 27-1-03.

R. R. JARUHAR
Secy. Railway Board &
Ex-Officio Additional Secy.

The 17th February 2003

No. ERB-I/2001/2/14.—Shri Shiv Kumar, SAG/IRSE, Adviser (Vigilance), Railway Board is appointed to Grade Rs. 22400—24500/- w.e.f. the forenoon of 27-1-03.

R. R. JARUHAR
Secy. Railway Board &
Ex-Officio Additional Secy.**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS**

New Delhi, the 6th February 2003

No. A-32014/1/2006-E.II.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Kamboj, Chief Draftsman to the post of Technical Assistant on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. 3rd February 2003.

B. B. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110003, the 13th February 2003

No. 3/1/2001-Admn.I.—The President is pleased to give in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS) to the following Scientists-C in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources as Scientists-D in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- w.e.f. the forenoon of 10th February, 2003 until further orders :—

S/Shri

1. P. C. Pant

2. N. B. Raju

3. A. M. Hussain.

2. In terms of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources Group "A" Gazetted posts (Non-Ministerial Scientific and Technical) Rules, 1988, the said promotion of above three Scientists will be personal to them.

M. J. JOHN, Under Secy.

No. 3/1/2001-Admn.I.—The President is pleased to give in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS) to Shri R. C. Tiwari, Scientist-D in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources as Scientist-F in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/- w.e.f. the forenoon of 10th February, 2003 until further orders.

2. In terms of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources Group "A" Gazetted posts (Non-Ministerial Scientific and Technical) Rules, 1988, the said promotion of the Scientist will be personal to him.

M. J. JOHN, Under Secy.

No. 3/1/2001-Admn.I.—The President is pleased to give in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS) to Shri A. A. Narvane, Scientist-B in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources as Scientist-C in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- w.e.f. the forenoon of 10th February, 2003 until further orders.

2. In terms of the Ministry of Non-Conventional Energy Group "A" Gazetted posts (Non-Ministerial Scientific and Technical) Rules, 1988, the said promotion of the Scientist will be personal to him.

M. J. JOHN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 7th February 2003

No. 7/13/97-GW.I(Vol.II).—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated the 26-6-2002 the date of taking over of the charge of the post of Sci-B (Chemist) by Smt. Puja Mehrotra in Central Ground Water Board may be read as 31-12-2001 instead of 08-01-2002.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

New Delhi, the 17th February 2003

No. 11/2003 F. No. 25/1/98-E-3.—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Boda Dean Kumar, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 24-12-99 (AN).

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 24th January 2003

No. A-12025/1/2000-IIS.—On the basis of the result of the Civil Services Examination, 2001, the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A' in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the dates mentioned against their names :

Sl. No., Name of the candidates, Rank No., Date of appointment

1. Sh. Ampady K 153, 02-09-2002 (FN)
2. Ms. Himani Sarad 169, 02-09-2002 (FN).
3. Sh. Suresh H. H. 170, 02-09-2002 (FN)
4. Sh. Pranav Ganesh 200, 02-09-2002 (FN)
5. Sh. Pankaj Pandey 203, 02-09-2002 (FN)
6. Sh. Ulaganathan 261, 23-12-2002 (FN)
7. Sh. Manish Gautam 401, 02-09-2002 (FN)
8. Ms. Padma Angmo 412, 02-09-2002 (AN)

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. All the above mentioned officers have been posted against the Probation Reserve posts of Assistant Information Officer in the Press Information Bureau, New Delhi.

G. S. PUNDIR, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 14th February 2003

No. A-32013/1/2002-TCPO/ADMN.III/UD-I.—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Kumar Raut, Assistant Town and Country Planner in the Town and Country Planning Organization as Associate Town and Country Planner in the same Organization in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 on regular basis with immediate effect and until further orders.

V. K. MISRA, Under Secy.

The 17th February, 2003

F. No. A-11015/99-TCPO/Admn.III/UD.I.—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 26th August 2002, the promotion of Smt. Neelam Sharma to the post of Senior PA (GCS Group B Gazetted) will be effective from 26th June 2002 (FN)

V. K. MISRA, Under Secy.

LAND & DEVELOPMENT OFFICE

New Delhi, the 30th January 2003

No. Adm. 14 (21)/2/2001/11.—The President is pleased to appoint Sh. Vijay Tehlan, Section Officer (CSS) in the Ministry of Information and Broadcasting, as Vigilance-cum-Legal Officer in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- in Land and Development Office, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation on deputation for a period of three years with effect from the afternoon of 27th January, 2003.

R. P. SINGH, Asst. Settlement Commissioner

प्रकाशक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003